

**Ref: 35/SE/LC/2025-26**

**Date:** August 21, 2025

Scrip Code BSE: 544122  
NSE: ENTERO  
ISIN: INE010601016

To,  
**Head, Listing Compliance Department  
BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street,  
Mumbai - 400 001.

**Head, Listing Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Plot No. C/1. G Block,  
Bandra -Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai- 400051

Dear Sir/Madam,

**Subject: Newspaper Advertisement – 7th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (“VC / OAVM”) facility.**

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in 'Financial Express' (English Newspaper) and 'Satyajay Times' (Hindi Newspaper) on August 21, 2025, intimating that 7th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 18, 2025, at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means.

The same is also available on the website of the Company at [www.enterohealthcare.com](http://www.enterohealthcare.com).

This is for your information and records.

Yours faithfully,

**For Entero Healthcare Solutions Limited**

Sanu Vishal  
Kapoor

Digitally signed by  
Sanu Vishal Kapoor  
Date: 2025.08.21  
14:33:08 +05'30'

Sanu Kapoor  
**Vice president- General Counsel, Company Secretary  
& Compliance Officer**

Encl: a/a

Regd. Office: ICICI Bank Limited, Landmark, Race Course Circle, Vadodara - 390007  
Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Branch Office: ICICI Bank Limited Shal Tower Plot No-23, New Rohtak Road Karol Bagh New Delhi-110005  
Notice for Disclosure of Legal Heirs of Deceased Borrower

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that Home Loan LBMAT00005836052/LBMAT00005836055 (Credit facility) was granted to Sadhna Parmar of Borrower, Co-Borrower, Guarantor/Mortgagor (excluding deceased borrower) (Borrowers) along with the deceased Sonu Singh Sikarwar by ICICI Bank Ltd. (The Bank).

We would like to inform you that the demise of Sonu Singh Sikarwar has come to our knowledge during field visits conducted by the Bank officials and by telephonic communications on the registered contact numbers. In this regard, letter dated August 18, 2025, was previously sent to the registered addresses of the Borrowers and the deceased Sonu Singh Sikarwar, for providing information about the Legal Heirs of the deceased Borrower.

Therefore, this Notice is hereby given for sharing details of the Legal Heirs of the deceased Sonu Singh Sikarwar with supporting documents for updating the Bank's records, within 15 days of publication of this Notice. You may submit the above-mentioned details to Sumit Tiwari by visiting Address: Address ICICI Bank Ltd 217/360, Kesapur, Bhuteshwar Road, Uttar Pradesh Mathura - 281004.  
Date : August 21, 2025  
Place : Agra

<SD> Authorised Officer  
For ICICI Bank Ltd.

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD.**  
CIN: L67120DL1982PLC289090  
Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060  
Tel No.: 9910003638, Email ID: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in

**NOTICE**  
Pursuant to Listing Agreement(s) with BSE Ltd. & CSE, Notice/Intimation is given that Meeting(s) of Audit Committee, Remuneration & Nomination Committee and Board of Directors is scheduled to be held on **TUESDAY - 02.09.2025** at 10:30 & 11:00 & 11:30 A.M. respectively at its Regd. Office inter-alia to consider & approve NOTICE of 42ND ANNUAL GENERAL MEETING alongwith Notes, Directors Report, MGT-9, Secretarial Audit Report, Management Discussion & Analysis Report, Secretarial Compliance Report, PCS Certificate, Corporate Governance Report, Policies, Committees, Book Closure Details, AGM details, Audited Financial Statements with Audit Reports of FY ended 31.03.2025, appointment of Director & Statutory Auditors, List of Resolutions, Correspondence with RTA, CDSL, NSDL, E-voting, Scrutinizer, Etc., Trading Window in equity shares will remain closed from 01.07.2025 to 05.09.2025 for all insiders and any other matter with the permission of Chair.  
(Kindly also refer OUTCOME/ PROCEEDINGS of Board Meeting held on 01.08.2025)  
New Delhi 20.08.2025 R. K. Gupta WTD & CFO - DIN: 00074532  
Members are requested to Update their Contact details, address, PAN, Email id, etc for your Company's updates, announcements, correspondence, etc.

**Indian Bank**  
55, The Mall, Meerut Cantt  
MEERUT CANTT Branch

**PUBLIC NOTICE REGARDING UNDELIVERED DEMAND NOTICE**

Demand Notice under SARFAESI Act, 2002 sec 13(2) were sent to the following Company Borrowers / Guarantors. These notice have been returned undelivered/ acknowledgment not received. You are hereby advised publication date of notice you may pay the balance outstanding amount with interest and cost within 60 days from the date of notice referred here below otherwise bank will proceed further to take possession of the property under sec 13 (4) of the SARFAESI Act 2002 and sell the same to recover the dues.

Name and Address of the Borrower / Guarantor & Account No.	Details of Security / Property	Date of Demand Notice
1. 1- Borrower /Mortgagor: Sh. Dharam Raj S/o Shri Ram Singh Address: G-35 Meenakshi Puram, Mawana Road Meerut. Address-2: 117A, Ishapuram Amhera, Adipur, Meerut. 2- Guarantor: Sh. Mahendra Singh S/o Mannu Lal Kushwaha Address-F-93 Meenakshi Puram, Mawana Road, Meerut. 3- Guarantor: Sh. Rajan S/o Laldu Singh Address-F 72 Meenakshi Puram, Mawana Road, Meerut.	All the part and parcel of the Residential House Bearing no 117-A Khasra No. 351 Situated at Amhera Adipur, Meerut. Bounded by: East: 27.6 feet/Rasta 30 feet wide, West: 27.6 Feet/Plot Number 118 of Sellers, North: 32.6 Feet/Rasta 10 Feet wide, South: 32.6/Plot Number 117 of Sellers	07.07.2025 Date of NPA: 12.12.2015 Amount due as per Demand Notice Rs. 12,58,133.00 + future Interest and Costs etc from 07.07.2025
Loan account No. - 20051673874 Meerut Cantt Branch	Owner/Title Holder: Sh. Dharam Raj S/o Shri Ram Singh	
Dated: 20.08.2025	Place: MEERUT	Authorised Officer

**ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED**  
CIN:L74999HR2018PLC072204  
Registered Office : Plot No. I-35, Building -B, Industrial Area Phase-I, 13/7 Mathura Road, Faridabad, Haryana, 121003  
Corporate Office : Unit No. 605 & 606, 6th Floor, Trade Centre, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra - 400051  
Email: info@enterohealthcare.com Tel. No.: 022-26529100, 69019100  
Website : www.enterohealthcare.com

**NOTICE OF THE 7th ANNUAL GENERAL MEETING OF ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED**

NOTICE is hereby given that the 7th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Entero Healthcare Solutions Limited ("the Company") will be held on **Thursday, September 18, 2025 at 11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC") or through other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated to the Members.

This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024, ("MCA Circulars").

In accordance with the MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023 and latest SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CID-PoD-2/PICR/2024/133 dated October 03, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of the 7th AGM along with a link to download the Annual Report 2024-25 will be sent through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company / their respective Depository Participants (DPs). Members may note that the said Notice and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website - [https://www.enterohealthcare.com/investor/annual\\_report/annual\\_report.php](https://www.enterohealthcare.com/investor/annual_report/annual_report.php) websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. Additionally, a letter providing the weblink for accessing the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent to those Members who have not registered their email address with the Company/ Depositories.

The detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM and the manner in which Members can participate in remote e-voting or cast their votes through the e-voting system provided during the AGM, have been provided in the said Notice. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Monday September 15, 2025  
End of e-Voting Upto 5.00 p.m. (IST) on Wednesday September 17, 2025

Members holding shares in physical form whose email ids are not registered with the Company, RTA, DPs or Depositories, for registering email id for obtaining Annual Report and Login details for e-voting process, are requested to kindly send an email containing their Name, Folio No. and scanned copies of their share certificate (front and back), PAN card (self-attested) & Aadhar Card (self-attested) to MUFG Intime India Private Limited, RTA of the Company at [rat.helpdesk@in.mpmis.mugim.com](mailto:rat.helpdesk@in.mpmis.mugim.com) and to the Company at [investor@enterohealthcare.com](mailto:investor@enterohealthcare.com) Members holding shares in demat form are requested to register or update their email id with their Depository Participant (DP) by following the process advised by them for such purposes.

For Entero Healthcare Solutions Limited  
Sd/-  
Place: Mumbai Sanu Kapoor  
Date: August 20, 2025 VP- General Counsel & Company Secretary

**पंजाब नैशनल बैंक**  
...मरवे का प्रतीक !

**DEMAND NOTICE**

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

All the borrowers/guarantors/co-obligants mentioned herein below are notified that loan(s) availed by them from Punjab National Bank is/are NPAs/s. The demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 sent through Registered Post/Courier have been received/ returned undelivered. We indicate our intention of taking possession of secured securities whose brief are mentioned below as per section 13(4) of Act in case of their failure to pay the amount mentioned along with future interest and charges within 60 days. The borrower's/guarantor's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section-13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name & Address of Borrower/ Guarantor	Description of Mortgage Securities	Outstanding Amount
1.	1. Smt Mridula Mishra W/o Shri Digvijay Kumar Mishra Address-01: Ward no. 40 Kachnal Gazi, Vishwanathpuram, Kashipur, Udhampur Singh Nagar, Uttarakhand-244713 Address-02 : Flat no. C 18, 2nd floor, Prakash Residency, Vill Baijuri, Kashipur, Udhampur Singh Nagar-244713. Address-03: Village Barhaj, Bareji, Telia Kalan, Deoria, Uttar Pradesh-274604	1. Equitable Mortgage of property Flat no. C-18 (Second Floor) 2 B/R Triplex situated at Village Baijuri (Prakash Residency) Tehsil Kashipur District Udhampur Singh Nagar Khasra no. 651 Min. Area 86.63 sq mtr. Sale deed duly registered in Bahi no. 01 zild no. 8041 on pages 227/256 at Serial no. 2932 in SRO Kashipur. Boundaries - East: Other Property, West: 9 mtr wide road, North: House no. C-17, South: Road. Ownership - Smt. Mridula Mishra w/o Sh. Digvijay Kumar Mishra.	<b>₹ 18,22,422.01</b> (Rupees Eighteen Lakh Twenty Two Thousand Four Hundred Twenty Two & Paise One only) + interest & other charges w.e.f 07.07.2025 Date of NPA 27.07.2025 Date of Demand Notice 08.08.2025
2.	1. Kanha Ji Trading (Prop. Smt Mridula Mishra) (Borrower), Address-01 : 2. Smt Mridula Mishra (Guarantor), Address: Flat no. C 18, 2nd floor, Prakash Residency, Vill Baijuri, Kashipur, Udhampur Singh Nagar-244713. Address-02: Village Barhaj, Bareji, Telia Kalan, Deoria, Uttar Pradesh-274604.	1. Hypothecation of Stocks, Book Debts and other assets created out of Bank finance both present and future. Ownership - Kanha Ji Trading Ward no. 40 Kachnal Gazi Vishwanathpuram, Kashipur, Udhampur Singh Nagar Uttarakhand-244713. Address-02 : Flat no. C 18, 2nd floor, Prakash Residency, Vill Baijuri, Kashipur, Udhampur Singh Nagar-244713. Address-03: Village Barhaj, Bareji, Telia Kalan, Deoria, Uttar Pradesh-274604.	<b>₹ 51,18,224.37</b> (Rupees Fifty One Lakh Eighteen Thousand Two Hundred Twenty Four & Paise Thirty Seven only) + interest & other charges w.e.f 30.06.2025 Date of NPA 27.07.2025 Date of Demand Notice 08.08.2025

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income. The borrowers/guarantors are advised to collect undelivered original notice(s) addressed to them from our concern Branch and pay the amount outstanding with interest and their costs within 60 days from the date of this publication to void further action under the Act.

Date : 21.08.2025 Place : Kashipur, Dist. U.S. Nagar Authorised Officer

**PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF BOBSHELL ELECTRODES LIMITED**  
CIN: L29308GJ1994PLC023275; ISIN: INE896B01011  
Registered Office : B-505, Fairdeal House, Opp. ST. Xavier's Ladies Hostel, Swastik Char Rasta, Navrangpura, Ahmedabad- 380009, Gujarat, India  
Tel: +91 9824031713; Email: bobshell electrodes@yahoo.co.in;

This Public Announcement ("PA") is being issued by Shailesh Manshankar Joshi, (hereinafter referred to as the "Promoter/Acquirer"), to all the public shareholders of BOBSHELL ELECTRODES LIMITED (hereinafter referred to as the "The Company" or "BOBSHELL" or "BEL") listed on BSE Limited, BSE Limited ("BSE") vide order no. LIST/COMP/AS/1709/2024-25 dated March 03, 2025 ("BSE Order") has notified to delist the securities of Bobshell Electrodes Limited ("Company") w.e.f. March 04, 2025. As per Chapter V of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR/CP/2016/81, the promoter of the Company is hereby providing Exit Offer to the Public Shareholders of the compulsory delisted company at the exit price computed by the independent valuer appointed by BSE pursuant to regulation 23(1) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. In the extant case, as per the BSE letter ref. no. LIST/COMP/AS/1735/2024-25 dated March 19, 2025, the fair value reported by the independent valuer is **Rs. 5.80** per equity shares of Rs. 10/- face value ("Exit Price") of the Company. In the interest of the Public Shareholders, Mr. Shailesh Manshankar Joshi ("Offeror") the Promoter of the Company have decided to offer Rs. 5.80 (Five Rupees and Eighty paise only) per Equity Share to the Public Shareholders of the Company for the purpose of Exit Offer.

**1. ABOUT THE COMPANY**

- Bobshell Electrodes Limited was incorporated on October 14, 1994 under the Companies Act, 1956 having its registered office at B-505, Fairdeal House, Opp. ST. Xavier's Ladies Hostel, Swastik Char Rasta, Navrangpura, Ahmedabad- 380009, Gujarat, India.
- BSE vide order no. LIST/COMP/AS/1709/2024-25 dated March 03, 2025, has hereby notified delisted Equity Shares of the Company w.e.f. March 04, 2025 ("Effective Date of Delisting") as per Chapter V of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 ("Compulsorily Delisting").
- Pursuant to regulation 23(3) of the Delisting Regulations, the Promoters of the compulsory delisted company shall acquire delisted Equity Shares from the Public Shareholders by paying them the value determined by the valuer appointed by BSE, subject to their option of retaining their shares.
- Accordingly, the Acquirer, one of the promoter and on behalf of all the Promoters of the Company, in compliance with regulation 23(3) of the Delisting Regulations is hereby making Exit Offer to the Public Shareholders of the Company.
- Exit Price of **Rs. 5.80** (Five Rupees and Eighty paise only) per Equity Share has been determined by the BSE vide public notice dated March 19, 2025.

**a) The share capital details of BEL are as follows:**

Paid up Equity Shares of the Company	No. of Shares / Voting Rights	% of Shares / Voting Rights
Fully Paid-up Equity Shares	60,06,000 equity shares of Rs. 10/- each	100%
Partly Paid-up Equity Shares	-	-
Total Paid-up Equity Shares	60,06,000 equity shares of Rs. 10/- each	100%

**b) The shareholding pattern of BEL is as follows:**

Particulars	No. of Equity Shares	% of Equity Share Capital
Promoter	10,60,600	17.66
Public	49,45,400	82.34
Total	60,06,000	100

c) Based on the audited financials of the Company for the last three Financial Years, the net worth and the Net Profit/(Loss) is as follows: (₹ in Lakhs)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2023
Paid up Equity share capital	600.60	600.60	600.60
Reserves and Surplus (Free Reserves)	(355.45)	(183.30)	(368.91)
Net worth	245.15	417.29	231.69
Net Profit/(Loss) after tax	(172.14)	185.60	(65.06)

The Company was compulsorily delisted by BSE as per chapter V of the Delisting Regulations. The Fair Value per Equity Share of Rs. 5.80 (Five Rupees and Eighty paise only) to be paid by the Acquirer to the Public Shareholders under the Exit Offer has been determined by the independent valuer appointed by the BSE. Accordingly, the Offeror shall acquire the Equity Shares tendered by the Public Shareholders for cash at Rs. 5.80 (Five Rupees and Eighty paise only) per Equity Share.

For BOBSHELL ELECTRODES LIMITED  
Sd/-  
Shailesh Manshankar Joshi  
Director  
Date: August 20, 2025  
Place: Ahmedabad (DIN:01453505)

**NIMBUS PROJECTS LIMITED**  
Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001  
CIN - L74899DL1993PLC055470,  
Website: [www.nimbusprojectsltd.com](http://www.nimbusprojectsltd.com), Email: [nimbusindia1d@gmail.com](mailto:nimbusindia1d@gmail.com),  
Telephone: 011-42878900, Fax Number: 011-22424291

**INFORMATION REGARDING THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING OF NIMBUS PROJECTS LIMITED**

Members are requested to note that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Nimbus Projects Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 23, 2025 at 12:30 P.M. through video-conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the 32nd AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI") read with the General Circulars Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022, Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, October 07, 2023 and October 24, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars").

In accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of 32nd AGM containing procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories. The instructions for joining AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during AGM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The notice of 32nd AGM and the Annual Report 2024-25 will also be available on the website of the Company at [www.nimbusprojectsltd.com](http://www.nimbusprojectsltd.com) and at the Bombay Stock Exchange (BSE) website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through Depository Participants (DPs) and in respect of shares held in physical form by sending e-mail /writing to the Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA"), Alankit Assignment Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Members are also requested to update their other details like PAN, Bank details etc. through DPs or RTA.

Members holding shares in physical form or demat form, who have not registered their email addresses with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or Depository Participants can obtain the Notice of 32nd AGM and Annual Report 2024-25 and/or can attend the AGM through VC/OAVM by visiting the website of NSDL (agency appointed by the Company to provide e-voting platform) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or writing to the Company's email id at [secretarial@nimbusgroup.net](mailto:secretarial@nimbusgroup.net).

The Company will provide the facility to its members to exercise their rights to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the members holding share in physical form or members who have not registered their e-mail address can cast their votes through e-voting will be provided as a part of the Notice of 32nd AGM.

Members are requested to read carefully all the notes set out in the Notice of 32nd AGM and in particular the instructions for joining the AGM, manner of casting votes through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, this advertisement is being issued for information and benefit of all the members of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors  
Nimbus Projects Limited  
Sd/-  
Ritika Aggarwal  
Company Secretary & Compliance Officer  
Mem. No. A69712  
Date : August 20, 2025  
Place : New Delhi

**Indian Bank**  
55, The Mall, Meerut Cantt  
MEERUT CANTT Branch

**PUBLIC NOTICE REGARDING UNDELIVERED DEMAND NOTICE**

Demand Notice under SARFAESI Act, 2002 sec 13(2) were sent to the following Company Borrowers / Guarantors. These notice have been returned undelivered/ acknowledgment not received. You are hereby advised publication date of notice you may pay the balance outstanding amount with interest and cost within 60 days from the date of notice referred here below otherwise bank will proceed further to take possession of the property under sec 13 (4) of the SARFAESI Act 2002 and sell the same to recover the dues.

Name and Address of the Borrower / Guarantor & Account No.	Details of Security / Property	Date of Demand Notice
1. 1- Borrower /Mortgagor: Sh. Dharam Raj S/o Shri Ram Singh Address: G-35 Meenakshi Puram, Mawana Road Meerut. Address-2: 117A, Ishapuram Amhera, Adipur, Meerut. 2- Guarantor: Sh. Mahendra Singh S/o Mannu Lal Kushwaha Address-F-93 Meenakshi Puram, Mawana Road, Meerut. 3- Guarantor: Sh. Rajan S/o Laldu Singh Address-F 72 Meenakshi Puram, Mawana Road, Meerut.	All the part and parcel of the Residential House Bearing no 117-A Khasra No. 351 Situated at Amhera Adipur, Meerut. Bounded by: East: 27.6 feet/Rasta 30 feet wide, West: 27.6 Feet/Plot Number 118 of Sellers, North: 32.6 Feet/Rasta 10 Feet wide, South: 32.6/Plot Number 117 of Sellers	07.07.2025 Date of NPA: 12.12.2015 Amount due as per Demand Notice Rs. 12,58,133.00 + future Interest and Costs etc from 07.07.2025
Loan account No. - 20051673874 Meerut Cantt Branch	Owner/Title Holder: Sh. Dharam Raj S/o Shri Ram Singh	
Dated: 20.08.2025	Place: MEERUT	Authorised Officer

**ANONDITA MEDICARE LIMITED**  
CIN: U22193DL2024PLC428183

**OUR PROMOTERS: MR. ANUPAM GHOSH, MRS. SONIA GHOSH AND MR. RESHANT GHOSH**

**THE ISSUE**

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 47,93,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF ANONDITA MEDICARE LIMITED ("AM") OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] /- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] /- PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 47,93,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE"). OUT OF THE OFFER, 2,70,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF UP TO 45,23,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•] /- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] /- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.01%, RESPECTIVELY, OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

\* Subject to finalization of basis of allotment.

**CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 21, 2025**

This is with reference to the Red Herring Prospectus (RHP) dated August 18, 2025, the advertisement dated August 18, 2025, & the corrigendum dated August 19, 2025 for the proposed initial Public Offering (IPO) of Anondita Medicare Limited. Investors are hereby informed of the following revisions in the issue details:

**PRICE BAND: ₹ 137/- to ₹ 145/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH**  
THE FLOOR PRICE IS 13.70 TIMES THE FACE VALUE AND GAP PRICE IS 14.50 TIMES THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES  
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 13.70 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 14.50 TIMES.

**BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.**

All other terms and conditions of the IPO remain unchanged

The changes set out above are to be read in conjunction with the RHP dated August 18, 2025, Advertisement dated August 18, 2025, Corrigendum Dated August 19, 2025 and accordingly, all references to this information in the RHP, Abridged Prospectus, GID, Application Forms stands amended pursuant to this Corrigendum. Investors should read this Corrigendum along with the RHP before making an investment decision with respect to the Offer.

**Narnolia**  
NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED  
Address: 201, 2nd Floor, Marble Arch, 236 B A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal- 700020, India  
Telephone: 033-40501500  
Email: [ipo@narnolia.com](mailto:ipo@narnolia.com)  
Contact Person: Mr. Rajveer Singh  
Website: [www.narnolia.com](http://www.narnolia.com)  
SEBI Registration number: INM000010791  
CIN: U51909WB1995PLC027876

**MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED**  
Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034, India  
Telephone: 011-45121795  
Fax No: N.A.  
Email: [ipo@maashitla.com](mailto:ipo@maashitla.com)  
Website: [www.maashitla.com](http://www.maashitla.com)  
Contact Person: Mr. Mukul Agrawal  
SEBI Registration Number: INR000004370  
CIN: U67100DL2010PTC208725

**Ms. Nutan Agrawal**  
Flat No.704, Narmada Block, N6, Sec-D, Pkt-6, Vasant Kunj, New Delhi, India-110070. Tel: 02164-272015  
Email: [secretarial@anonditamedicare.com](mailto:secretarial@anonditamedicare.com)  
Website: [www.anonditamedicare.com](http://www.anonditamedicare.com)

Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Managers or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Anondita Medicare Limited  
On Behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Anupam Ghosh  
(Managing Director)

Anondita Medicare is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Delhi & Haryana on August 18, 2025, website of lead managers to the issue at [www.narnolia.com](http://www.narnolia.com), website of the company at [www.anonditamedicare.com](http://www.anonditamedicare.com) and website of NSE Emerge i.e. <https://www.nseindia.com/>, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

